

# Pre board Examination 2020

Time - 3 hr.

Class - X  
Subject - Math

MM- 100

नोट :- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है ।

प्र01- सही विकल्प चुनकर लिखिए ?

1) निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सांत नहीं है -

- अ)  $\frac{6}{15}$       ब)  $\frac{35}{50}$       स)  $\frac{17}{8}$       द)  $\frac{1}{3}$

2) समीकरण निकाय  $a_1x + b_1y + c_1 = 0$  तथा  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  के अनंत हल के लिए प्रतिबन्ध है -

- अ)  $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$       ब)  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$       स)  $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$       द)  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

3)  $\sin 60^\circ = \dots$

- अ)  $\frac{1}{2}$       ब) 1      स)  $\sqrt{3}$       द)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4) तृतीय चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह होते हैं -

- अ) (+, +)      ब) (-, +)      स) (+, -)      द) (-, -)

5) बहुपद  $x^2 + 10x + 24$  के शून्यकों का योगफल होगा -

- अ) 24      ब) -10      स) 10      द) -24

प्र02- रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए ?

1) समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ ..... होती हैं ।

2) वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ..... कहते हैं ।

3) निश्चित घटना की प्रायिकता ..... होती है ।

4) आँकड़े 2, 6, 0, 4, 5, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक ..... होगा ।

5) बेलन के सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = ..... ।

प्र03- सही जोड़ी मिलाइए ?

खण्ड(अ)

- 1)  $\frac{1-\tan^2 45^\circ}{1+\tan^2 45^\circ}$
- 2)  $\frac{\sin 18^\circ}{\cos 72^\circ}$
- 3)  $9\sec^2 \theta - 9\tan^2 \theta$
- 4)  $\operatorname{cosec}(90 - \theta)$
- 5)  $1 + \cot^2 \theta$

खण्ड(ब)

- 1)  $\sec \theta L_1$
- 2) 01
- 3)  $\operatorname{sec}^2 \theta 45^\circ$
- 4) 9-3
- 5) 1 2

प्र04- सत्य/असत्य लिखिए ?

1)  $\theta$  में बृद्धि होने पर  $\cos \theta$  के मान में भी बृद्धि होती है ।

2) प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है ।

3) 2, 4, 8, 16, ..... एक समान्तर श्रेणी है ।

4) द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है ।

5) वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र  $2\pi r$  है ।

प्र05- एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए ?

1) वृत्त के त्रिज्याखण्ड के संगत चाप की लम्बाई ज्ञात करने का सूत्र लिखिए ?

2) शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र लिखिए ?

3) प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिन्दु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं ?

5

5

5

5

5

///

4) द्विघात समीकरण  $ax^2 + bx + c = 0$  के विविक्तकर का सूत्र लिखिए ?

5) केसी समान्तर श्रेणी के  $n$  वाँ पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए ?

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए  $2 - 2$  अंक निर्धारित है आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।  $2 \times 5 = 10$   
प्र06- संख्या 156 के अभाज्य गुणनखण्ड लिखिए ?

अथवा

135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए ?

प्र07- द्विघात बहुपद  $x^2 + 7x + 10$  के शून्यक ज्ञात कीजिए ?

अथवा

एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः  $-\frac{1}{4}$  और  $\frac{1}{4}$  है ?

प्र08- बिन्दु (2, 3) तथा (4, 1) के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ?

अथवा

बिन्दु (7, -2) (5, 1) (3,  $k$ ) सरेख हैं तो  $k$  का मान ज्ञात कीजिए ?

प्र09- एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद निकालने पर उसके लाल न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ?

अथवा

किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। इन में से एक पेन निकालने पर उसके अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ?

प्र010- 52 पत्तों की एक गड्ढी में से एक पत्ता निकालने पर उसके तस्वीरी पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ?

अथवा

एक पाँसा दो बार फेंकने पर 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ?

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए  $3 - 3$  अंक निर्धारित है आंतरिक विकल्प दिए (गैण्डी)।  $3 \times 4 = 12$

प्र011- यदि  $15\cot A = 8$  हो तो  $\sin A$  और  $\sec A$  का मान ज्ञात कीजिए ?

अथवा

निम्न का मान ज्ञात कीजिए  $2\tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$  का मान ज्ञात कीजिए ?

प्र012-  $y$  का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिन्दु  $P(2, -3)$  और  $Q(10, y)$  के बीच की दूरी 10 है ?

अथवा

बिन्दु (-3, 10) और (6, -8) को जोड़ने वाली रेखाखण्ड को बिन्दु (-1, 6) किस अनुपात में विभाजित करता है ?

अनुपात में विभाजित करता है ?

प्र013- सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं ?

अथवा

वृत्त के केन्द्र से 5 सेमी $0$  की दूरी पर स्थित बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई 4 सेमी $0$  है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए ?

प्र014- त्रिज्या 21 सेमी $0$  वाले वृत्त का एक चाप केन्द्र पर  $60^\circ$  का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लम्बाई एवं त्रिज्याखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ?

अथवा

एक छतरी में आठ ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी $0$  त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ?

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए  $4 - 4$  अंक निर्धारित है आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।  $4 \times 7 = 28$

प्र015- सिद्ध कीजिए कि  $\frac{3}{4} 2\sqrt{5}$  एक अपरिमेय संख्या है ?

अथवा

दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक  $6q + 1$ ,  $6q + 3$  या  $6q + 5$  के रूप में होता है ?

प्र016-  $3x^3 + x^2 + 2x + 5$  को  $1 + 2x + x^2$  से भाग दीजिए एवं भागफल व शेषफल लिखिए ?

अथवा

$x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 10x - 5$  के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक  $\sqrt{\frac{5}{3}}$  व  $-\sqrt{\frac{5}{3}}$  हैं ?

प्र017- समीकरण  $3x + 4y = 10$  और  $2x - 2y = 2$  को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए ?

अथवा

दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है । इस संख्या का नौ गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है । वह संख्या ज्ञात कीजिए ?

प्र018- उस समान्तर श्रेणी का 31 वाँ पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 वाँ पद 38 और 16 वाँ पद 73 है ?

अथवा

किसी समान्तर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है , तो प्रथम  $n$  पदों का योग ज्ञात कीजिए ?

प्र019- मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिन्दुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरकोण है । तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊँचाई 6 मीटर है ?

अथवा

7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण  $60^\circ$  है और इसके पाद का अवनमन कोण  $45^\circ$  है । टॉवर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए ?

प्र020- सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है

अथवा

एक  $\Delta ABC$  जिसका कोण  $C$  समकोण है की भुजाओं  $CA$  और  $CB$  पर क्रमशः बिन्दु  $D$  और  $E$  स्थित हैं । तो सिद्ध कीजिए कि  $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$  है ?

प्र021- भुजा 7 सेमी0 वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्द्धगोला रखा हुआ है । अर्द्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है । इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ? <https://www.rajasthanboard.com>

अथवा

त्रिज्या 4.2 सेमी0 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी0 वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है । बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए ?

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए 5 – 5 अंक निर्धारित हैं आंतरिक विकल्प दिए गए हैं ।  $5 \times 5 = 25$

प्र022- निम्न समीकरण सूत्र विधि से हल कीजिए  $\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x-7} = \frac{11}{30}$

अथवा

एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी0 की दूरी तय करती है । यदि यह चाल 5 किमी0 / घण्टा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घण्टा कम समय लेती है । रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए ?

प्र023- सिद्ध कीजिए  $\frac{\cos A}{1+\sin A} + \frac{1+\sin A}{\cos A} = 2\sec A$

अथवा

सिद्ध कीजिए  $\sqrt{\frac{1+\sin A}{1-\sin A}} = \sec A + \tan A$

प्र024- 4 सेमी0 , 5 सेमी0 , 6 सेमी0 भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की  $\frac{2}{3}$  गुनी हो । रचना के पद भी लिखिए ?

अथवा

6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खीचिए । केन्द्र से 10 सेमी0 दूर स्थित एक बिन्दु से वृत्त पर स्पर्श रेखायुग्म की रचना कीजिए एवं रचना के पद भी लिखिए ?

प्र025- ऊँचाई 220 cm और अवधार 24 cm वाले एक बेलन जिसकी ऊँचाई 60 cm एवं त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तम्भ बना है । इस स्तम्भ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि  $1 \text{ cm}^3$  लोहे का द्रव्यमान 8 gram है ?

अथवा

//4//

विमाओं  $5.5\text{cm} \times 10\text{cm} \times 3.5\text{cm}$  वाला एक घनाभ बनाने के लिए  $1.75\text{cm}$  व्यास और  $2\text{ mm}$  मोटाई वाले कितने चॉदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा ?

प्र026- किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए ?

दैनिक व्यय (रुपये में)	100 – 150	150 – 200	200 – 250	250 – 300	300 – 350
परिवारों की संख्या	4	5	12	2	2

अथवा

नीचे दिए गए बंटन का माध्यक  $28.5$  है तो  $x$  और  $y$  ज्ञात कीजिए ?

वर्ग अंतराल	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	योग
बारम्बारता	5	$x$	20	15	$y$	5	60

<https://www.rajasthanboard.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से